



BAL BHARATI PUBLIC SCHOOL, PITAMPURA, DELHI – 110034

CLASS V

Session 2024-25

Syllabus for HALF YEARLY

Max Marks : 50

Duration : 2 hours

Subject	TOPICS
ENGLISH Half Yearly Exam	<p><u>Main Coursebook: My Canvas-V</u></p> <p>Lesson 2: Echoing Green (Poem) Lesson 5: Damon and Pythias Lesson 6: Children of India</p> <p><u>Grammar: Cornerstone- V</u></p> <ul style="list-style-type: none">➤ Noun (Number)➤ Kinds of Adjectives➤ Articles➤ Punctuation
हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा	<p>पाठ्य पुस्तक - नई आशाएँ</p> <ul style="list-style-type: none">➤ पाठ 3- बहुत बड़ा धनवान (लिखित परीक्षा)➤ पाठ 5- लहरों का गीत (केवल पंक्तियाँ पूरी करें तथा शब्द- अर्थ)➤ पाठ 6- सबसे सुंदर लड़की (लिखित परीक्षा) <p>व्याकरण : मधुर हिंदी व्याकरण</p> <ul style="list-style-type: none">➤ अपठित गद्यांश➤ वचन बदलो(मुर्गा से रुपया)➤ लिंग बदलो (नर से विधुर)➤ संज्ञा (भेद सहित)

<p>Mathematics Half Yearly Exam</p>	<p><u>1.TOPIC: Shapes and Figures</u></p> <p>Subtopics:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Point, line, line segment and ray (Recapitulation class4) ➤ Identifying collinear and non collinear points. ➤ Differentiation between parallel, intersecting, and perpendicular lines. ➤ Exploring the objects in our surroundings, which give an idea of a line, line segment, ray, parallel, perpendicular, and intersecting lines. <p><u>2.TOPIC: Playing with Numbers</u></p> <p>Sub Topics:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Performing the four operations on numbers having four or more digits by understanding the place value of the numbers. ➤ Identifying the correct arithmetic operation in a real-life situation and solving it (Statement questions). <p><u>3..TOPIC: Turns and Corners</u></p> <p>Subtopics:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Identifying angles formed in different objects in the surrounding area. ➤ Identifying acute, obtuse, right, straight and complete angles. ➤ Counting and naming the angles in the figure.
<p>Social Science Half Yearly Exam</p>	<p><u>Lesson 1: Know Your Planet (Map work)</u></p> <p><u>Subtopics</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Oceans and continents ➤ Globe and maps <p>Lesson 5: Weather and Climate</p> <p><u>Subtopics:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Weather ➤ Climate ➤ Difference between weather and climate ➤ Factors affecting the weather of a place ➤ Factors affecting the climate of a place ➤ Heat Zones

	<p>Lesson 6 : The Land of Dense Forests (DRC)</p> <p><u>Subtopics:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Location & Land ➤ Climate & Vegetation ➤ Wildlife ➤ Economic resources ➤ Life of the people ➤ Transport & Cities
<p>Science Half Yearly Exam</p>	<p>TOPIC-Plants- Increasing the numbers</p> <p><u>Subtopics:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Seed Germination ➤ Dispersal of Seeds ➤ New plants from other parts of plants <p>TOPIC - Soil Erosion and Conservation</p> <p><u>Subtopics:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Soil as the foundation of all life on Earth ➤ Formation of soil ➤ Soil Erosion ➤ Soil Conservation <p>TOPIC -Our Earth’s Natural Satellite</p> <p><u>Subtopics:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Defining a Satellite ➤ Why does the Moon shine? ➤ Phases of Moon ➤ The surface of the Moon ➤ There is no life on the Moon ➤ Landing on the Moon ➤ Eclipses of the Moon and the Sun

<p>GK Half Yearly Exam</p>	<p>Textbook- Do You Know? (Cambridge University Press)</p> <p>Topics:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wrap it up! 2. Gardens of India 3. Renowned Authors 4. First among equals 5. Bharat- the land of my dreams 6. Women in the spotlight 7. Exploring Space 8. Scientific and medical instruments 9. Modern Computer Gadgets 10.Branches of Medicine <p>NOTE- Textbook (25 marks), Mental Ability (15 marks) and Current Affairs (10 marks) will be the part of assessment.</p>
<p>COMPUTER Half Yearly Exam</p>	<p>PRACTICAL</p> <p>Topic-Scratch Programming</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Working with Blocks ● Working with Sprites ● Programming